

यह पुस्तिका स्कूल कम्यूनिटी काउंसिलों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार की गई है।

दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड आपको अपने स्कूल कम्यूनिटी काउंसिल का सदस्य बनने के बारे में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

छात्रों के शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक साथ काम करने में आपकी साझेदारी बेहद जरूरी है।

माता-पिता संबद्धता समिति क्या है ?

माता-पिता संबद्धता समिति एक क्षेत्रीय समिति है जो संसाधनों और पेशेवर विकास प्रदान करके एससीसी की सहायता करती है। समिति में पूरे दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के एसएससी के प्रतिनिधि माता-पिता, ट्रस्टी, समुदाय सदस्य, स्कूल और बोर्ड के स्टाफ शामिल हैं।

अपने स्कूल कम्यूनिटी काउंसिल का सदस्य बनने के बारे में सोचें?

अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को टेलीफोन करें या एसएससी के लिए जिम्मेदार सुपरिंटेंडेंट ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें।
(905) 666 - 5500

माता-पिता संबंधी संसाधन वेबसाइटें:

www.durham.edu.on.ca

(माता-पिता संबंधी संसाधनों को और उसके बाद स्कूल कम्यूनिटी काउंसिलों को चुनें)

www.edu.gov.on.ca

www.edu.gov.on.ca/abc123

www.eqao.com

www.ontarioparentcouncil.org



आभार:

दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड
माता-पिता संबद्धता समिति

स्कूल कम्यूनिटी काउंसिल

---- स्कूल की सफलता के लिए माता-पिता का सहयोग ----

दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड



आज की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
बेहतर भविष्य के लिए



अपने बच्चे के स्कूल से
जुड़े रहने का
एक बेहतर तरीका

स्कूल कम्यूनिटी काउंसिलों के बारे में आपके मन में उठने वाले प्रश्न

स्कूल कम्यूनिटी काउंसिल क्या है ?

स्कूल कम्यूनिटी काउंसिल (जिसे एससीसी के नाम से जाना जाता है) इच्छुक माता-पिता, स्कूल स्टाफ और समुदाय सदस्यों का एक समूह है जो स्कूल के छात्रों की सहायता के लिए प्रिंसिपल के साथ काम करता है।

एससीसी क्या करता है ?

एससीसी स्कूल से संबंधित सभी मामलों पर स्कूल के प्रिंसिपल को सुझाव देकर छात्र उपलब्धि का समर्थन करते हैं। एससीसी माता-पिता समुदाय को स्कूल संबंधी विशिष्ट मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। (जैसे, हेल्दी स्नैक्स प्रोग्राम)

क्या मेरे स्कूल में एससीसी है?

हाँ, ओंटारियो में सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्कूल में एससीसी है।

एससीसी की बैठक कब-कब होती है ?

एससीसी की बैठक हर स्कूल वर्ष में कम-से-कम चार बार करते हैं लेकिन कई इससे भी अधिक बार बैठकें करते हैं।

क्या मैं अपने एससीसी की बैठकों में जा सकता हूँ ?

हाँ, सभी बैठकें जनता के लिए खुली होती हैं लेकिन वोट देने के लिए आपको एससीसी का सदस्य होना जरूरी है। अपने एससीसी की अगली बैठक की तारीख जानने के लिए अपने प्रिंसिपल को फोन करें।

मैं अपने एससीसी का सदस्य कैसे बन सकता हूँ?

नामांकन फॉर्म भरें और स्कूली वर्ष की शुरुआत में इसे प्रिंसिपल को वापस कर दें। यदि जरूरी हुआ तो सदस्य माता-पिता के लिए स्कूल के पहले महीने में चुनाव किया जाएगा।



अगर मैं एससीसी का सदस्य बन जाता हूँ तो मुझे

क्या करना होगा ?

आपको वर्ष के दौरान एससीसी की सभी बैठकों में शामिल होने की योजना बनानी चाहिए और एससीसी द्वारा आयोजित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इसके अलावा, कई एससीसी स्कूल की सहायता करने और एससीसी के प्रस्तावों के लिए धन इकट्ठा करते हैं।

मैं अपने बच्चे के स्कूल के एससीसी से जुड़कर क्या प्राप्त कर सकता हूँ ?

एससीसी के सदस्य इस बात से अवगत रहते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। सदस्य स्कूल के मामलों में प्रिंसिपल को सुझाव भी दे सकते हैं। एससीसी के साथ प्रिंसिपल का लगातार संपर्क होता है।

क्या वाकई एससीसी स्कूल में बदलाव लाते हैं ?

एससीसी के पास संगठित और समर्थित कार्यक्रम होते हैं, जैसे :

- परिवार की साक्षरता और मैथ नाइट्स
- घर में पठन के कार्यक्रम
- नाश्ता और हेल्दी स्नैक्स प्रोग्राम
- धन इकट्ठा करने की परियोजनाएं

एससीसी कई मुद्दों पर प्रिंसिपल और बोर्ड को सुझाव दे सकता है जिनमें शामिल हैं:

- छात्र उपलब्धि
- छात्र आचरण नियमावली
- छात्रों को प्रभावित करने वाली बोर्ड की नीतियां (जैसे, प्ले ग्राउंड उपकरण)
- इकट्ठा किए गए धन लाभों के व्यय के बारे में

